

## पेंटामिडीन (PENTAMIDINE)

- यह दवा क्लिनिक या अस्पताल में नेबुलाइज़र (दवा को तरल से धुंध में बदलने वाला उपकरण) के द्वारा सांस अंदर खींचने (सांस लेने) द्वारा दी जाती है। यह दवा टीके द्वारा नस में पहुंचाई जाती है।
- इस दवा के लिए BC ट्रांसप्लांट द्वारा फंड नहीं दिए जाते और इसे अपनी पसंद की फार्मसी से खरीदा जा सकता है।

### यह दवा कैसी दिखती है? (What does the medication look like?)



### यह दवा किस बीमारी के लिए है? (What is this medication for?)

PCP या PJP के नाम से जाने जाते एक विशेष प्रकार के निमोनिया (फेफड़ों का संक्रमण) की रोकथाम या उसका इलाज करने के लिए पेंटामिडीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का संक्रमण कमजोर प्रतिरक्षा-प्रणाली वाले रोगियों में अधिक होता है (उदाहरण के लिए एक अंग के ट्रांसप्लांट के बाद)। किसी व्यक्ति को सल्फा एलर्जी होने या सल्फामैथोएज़ोल/ट्रायमेथुप्रिम के दुष्प्रभाव महसूस होने पर नेबुलाइज़ की गई (वाष्पीकृत) पेंटामिडीन का उपयोग किया जाता है।

### मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

नेबुलाइज़र द्वारा पेंटामिडीन महीने में एक बार दी जाती है	आपकी दवा के समय: _____
--	------------------------

- पेंटामिडीन, अस्पताल की सुविधा में पल्मनरी फंक्शन लैब के भीतर निर्दिष्ट कमरे में दी जाती है।
- पेंटामिडीन महीने में एक बार सांस अंदर खींचने द्वारा दी जाती है। यह दवा कितने समय तक लेने की ज़रूरत है, का फैसला आपका डॉक्टर करेगा।

### इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
छाती में दर्द, खांसी या घरघराहट	इसे कम करने के लिए पेंटामिडीन से पहले, आपको सांस द्वारा अन्य दवा (सल्बुटामोल, वैंटोलिन®) दी जाएगी।
भूख में कमी	यह अस्थायी है और दो तीन दिन के बाद ठीक हो जाएगी।
चक्कर आना/थकावट/थकन	धीरे-धीरे सांस लें; ज़रूरत पड़ने पर पेंटामिडीन बंद कर दें।
खांसी और गले में खराश	यदि लक्षण बहुत अधिक परेशान करने वाले हैं, तो गले की लोज़ेजिज़ या खांसी की पीने वाली दवा लें।
मुंह में कड़वा या धातु का स्वाद	पेंटामिडीन के इलाज के फ़ौरन बाद कुल्ला करें। यदि इलाज के दौरान ऐसा होता है, तो आप सांस से दवा अंदर खींचना बंद कर सकते हैं और पानी पीएं।